

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10—अगस्त 16, 2019 (श्रावण 19, 1941)=

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10—AUGUST 16, 2019 (SRAVANA 19, 1941)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

---

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक  
(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुम्बई-400001, दिनांक 10 अप्रैल 2019

बैंवि.सं.आरईटी.बीसी.35/12.01.001/2018-19—जहां, केंद्र सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 2 जनवरी 2019 को प्रकाशित दिनांक 2 जनवरी, 2019 की अधिसूचना जी.एस.आर 2 (ई) द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन की स्वीकृति प्रदान की है;

अतः, अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल, 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया जाए क्योंकि ये बैंक उक्त दिनांक से प्रभावी होकर बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देंगे।

लिलि वडेरा  
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 1 जुलाई 2019

बैविवि.एनबीडी.सं.31/16.02.010/2019-20—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निदेश देता है:

नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड  
पहली और तीसरी मंजिल, फॉर्च्यून सेंट्रल  
बसिस्ता रोड, बसिस्तपुर बाय लेन नंबर 3  
बेलटोला, गुवाहाटी, कामरूप जिला  
असम -781028

लिलि वडेरा  
कार्यपालक निदेशक

मुम्बई-400001, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

सं.बैं.वि.केका.आरसीबीडी.सं.01/19.51.025/2016-17—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं:-

“दि उड़ीसा स्टेट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर

“दि ओड़ीशा स्टेट को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

सुदर्शन सेन  
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA  
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 10th April 2019

DBR. No.Ret.BC.35/12.01.001/2018-19—Whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ) and section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), accorded its sanction,vide notification G.S.R 2(E) dated January 2, 2019 published in the Gazette of India on January 2, 2019, to the amalgamation of Vijaya Bank and Dena Bank with Bank of Baroda with effect from April 01, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Vijaya Bank and Dena Bank from the Second Schedule to the said Act with effect from April 01, 2019 as those banks would cease to carry on banking business with effect from that date.

LILY VADERA  
Executive Director

The 1st July 2019

DBR.NBD. No.31/16.02.010/2019-20—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

North East Small Finance Bank Limited  
1st and 3rd Floor, Fortune Central  
Basistha Road, Baisthapur Bye Lane No. 3  
Beltola, Guwahati, Kamrup District  
Assam-781028

LILY VADERA  
Executive Director

Mumbai-400001, the 9th December 2016

DCBR.CO.RCBD. No.01/19.51.025/2016-17—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act, namely:—

For the words “The Orissa State Co-operative Bank Ltd.”

The words “The Odisha State Co-operative Bank Ltd.” shall be substituted.

SUDARSHAN SEN  
Executive Director